

August 09, 2025

The Listing Department  
**BSE Limited**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
Mumbai 400 001  
BSE SCRIP Code: 543425

The Listing Department  
**National Stock Exchange of India Limited**  
Exchange Plaza  
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)  
Mumbai 400 051  
NSE Symbol: MAPMYINDIA

**Sub: Copy of Standalone & Consolidated Un-Audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2025, published in newspaper.**

Dear Sir / Madam,

Please find attached copies of Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results / Statements for the quarter ended June 30, 2025, published in Financial Express (English edition) and Jansatta (Hindi Edition) each on August 09, 2025.

Kindly acknowledge the receipt of the same.

Thanking you.

Yours faithfully,  
**For C.E. Info Systems Limited**

**Saurabh Surendra Somani**  
**Company Secretary & Compliance Officer**



**ASSOCIATED ALCOHOLS & BREWERIES LIMITED**

CIN: L15520MP1989PLC049380  
Corporate / Regd Office: 4th Floor, BPK Star Tower, A.B. Road, Indore-452 008 (M.P) Phone : 0731-4780400  
E-mail: investorrelations@aabl.in, Website: www.associatedalcohols.com

**UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2025**

In accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Board of Directors of Associated Alcohols & Breweries Limited based on the recommendation of the Audit Committee, has approved the Unaudited Financial Results (Consolidated & Standalone) for the Quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2025, at its meeting held on 08<sup>th</sup> August, 2025.

The Unaudited Financial Results, along with the Limited Review Report issued by the Statutory Auditors, are available on our company's website: <https://associatedalcohols.com/financial-results/> The same can also be accessed by scanning the QR Code below:



For Associated Alcohols & Breweries Limited

Prasann Kumar Kedia  
Managing Director  
DIN: 00738754

Place: Indore  
Date: 08th August, 2025

**MapmyIndia MAPPLS C. E. Info Systems Limited**

Registered and Corporate Office: First, Second, & Third Floor, Plot No. 237, Okhla Industrial Estate, Phase- III, New Delhi 110 020, India  
CIN: L74899DL1995PLC065551; Website: www.mapmyindia.com; E-mail: cs@mapmyindia.com; Telephone: +91 11 4600 9900.

**Extract of unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter ended June 30, 2025**

Particulars	Consolidated			
	Quarter ended		For the year ended	
	June 30, 2025	March 31, 2025	June 30, 2024	March 31, 2025
	unaudited	Audited (refer note 5)	unaudited	Audited
Total income from operations (net)	12,161	14,355	10,149	46,325
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6,027	7,353	4,715	20,569
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6,027	7,353	4,715	20,569
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,581	4,902	3,586	14,759
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4,588	4,862	3,531	14,800
Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs. 2/-)	1088	1,088	1,081	1,088
Reserves (excluding Revaluation Reserve & Debit balance in Profit and Loss A/c.s shown in the Balance Sheet of previous year)				77,966
Basic and Diluted EPS (not annualised) (after Tax, exceptional and Extraordinary charges)				
(a) Basic	8.48	8.93	6.63	27.05
(b) Diluted	8.39	8.83	6.58	26.77

**KEY NUMBERS OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025**

Particulars	Standalone			
	Quarter ended		For the year ended	
	June 30, 2025	March 31, 2025	June 30, 2024	March 31, 2025
	unaudited	Audited (refer note 6)	unaudited	Audited
Total income from operations (net)	10,265	11,751	8,635	38,387
Net Profit / (Loss) for the period before tax	6,578	7,199	4,801	20,637
Net Profit / (Loss) for the period after tax	5,035	4,887	3,725	15,002
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5,043	4,844	3,672	15,035

**Notes:**  
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the on Company's website [www.mapmyindia.com](http://www.mapmyindia.com) and also on the website of BSE ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and NSE ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)), where the shares of the Company are listed.

The Financial Results can also be accessed by scanning the below QR Code:



For and on behalf of the Board of Directors of  
**C. E. Info Systems Limited**

Rakesh Verma  
Managing Director  
DIN: 01542842

Date: August 08, 2025  
Place: New Delhi



**TYGER CAPITAL PRIVATE LIMITED**

(formerly known as Adani Capital Private Limited)  
Regd Office Address: Adani House, 56 Shrimall Society, Navrangpura, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India. CIN: U65990GJ2016PTC093692, Tel: +91 22 6241 1200  
Fax: +91 22 2652 0650, Website: www.tyger.in

**EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025**

Sr. No	Particulars	Quarter Ended		
		30-Jun-25 (Unaudited)	30-Jun-24 (Unaudited)	31-Mar-25 (Audited)
1	Total Income from Operations	2,063.11	1,474.25	7,078.73
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	331.57	117.09	1,021.49
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items)	331.57	117.09	1,021.49
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and / or extraordinary items)	250.58	86.76	766.57
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising of Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	250.68	85.44	767.00
6	Paid up Equity Share Capital	438.34	388.02	388.02
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserves)	2,777.21	1,739.74	2,499.93
8	Securities Premium Account	16,802.92	13,853.24	13,853.24
9	Money received against Share Warrants	-	750.00	750.00
10	Net Worth	20,018.47	16,731.01	17,491.18
11	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	33,052.15	25,967.88	32,536.24
12	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
13	Debt Equity Ratio	1.65	1.55	1.86
14	Earnings per equity share			
	Basic (₹) (Not Annualized)	6.46	2.24	19.76
	Diluted (₹) (Not Annualized)	6.46	2.24	19.76
15	Capital Redemption Reserve	-	-	-
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
18	Liquidity Coverage Ratio (%)	409.04%	NA	193.78%

**Notes:**  
1 The above is an extract of the detailed format of standalone quarterly financial results filed with the stock exchanges under regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), as amended. The full format of the standalone quarterly financial results are available on the website of the Stock Exchange [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website [www.tyger.in](http://www.tyger.in).  
2 For the other line items referred in regulation 52 (4) of the Listing Regulations, as amended, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) (Bombay Stock Exchange) and can be accessed on the URL [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).  
3 The above standalone financial results of the Company are reviewed and recommended by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on August 08, 2025. The said standalone financial results have also been subjected to a limited review by the statutory auditors MSKA & Associates on which they have expressed an unmodified conclusion.  
4 Figures for the previous periods / year have been regrouped / reclassified wherever necessary to confirm with the current period / year presentation.

For and on behalf of Board of Directors

Mr. Gaurav Gupta  
Managing Director & CEO  
DIN: 01669109

Date: August 08, 2025  
Place: Mumbai



**SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA**

(Established under the Small Industries Development Bank of India Act, 1989)  
Head Office: SIDBI Tower, 15, Ashok Marg, Lucknow-226 001

**STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025**

Particulars	Quarter Ended			Year Ended
	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025
	[Reviewed]	[Audited]	[Reviewed]	[Audited]
<b>1. Interest earned (a)+(b)+(c)+(d)</b>	<b>10,307</b>	<b>9,810</b>	<b>9,155</b>	<b>37,831</b>
(a) Interest/disc. on advances/ bills	9,061	8,670	8,021	33,042
(b) Income on investments	666	628	586	2,449
(c) Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	580	512	548	2,340
(d) Others	-	-	-	-
<b>2. Other Income</b>	<b>127</b>	<b>169</b>	<b>133</b>	<b>680</b>
<b>3. Total Income (1+2)</b>	<b>10,434</b>	<b>9,979</b>	<b>9,288</b>	<b>38,511</b>
<b>4. Interest Expended</b>	<b>7,846</b>	<b>7,574</b>	<b>6,832</b>	<b>28,351</b>
<b>5. Operating Expenses (i)+(ii)</b>	<b>320</b>	<b>455</b>	<b>278</b>	<b>1,430</b>
(i) Employees cost	220	214	177	773
(ii) Other operating expenses	100	241	101	657
<b>6. Total Expenditure (4+5) excluding provisions and contingencies</b>	<b>8,166</b>	<b>8,029</b>	<b>7,110</b>	<b>29,781</b>
<b>7. Operating Profit before Provisions and Contingencies (3-6)</b>	<b>2,268</b>	<b>1,950</b>	<b>2,178</b>	<b>8,730</b>
<b>8. Provisions (other than tax) and Contingencies [Net of write back]</b>	<b>(21)</b>	<b>865</b>	<b>2</b>	<b>2,332</b>
<b>9. Exceptional Items</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10. Profit (+)/ Loss (-) from Ordinary Activities before tax (7-8+9)</b>	<b>2,289</b>	<b>1,085</b>	<b>2,176</b>	<b>6,398</b>
<b>11. Tax expense [Net of DTA/DTL]</b>	<b>547</b>	<b>281</b>	<b>541</b>	<b>1,587</b>
<b>12. Net Profit (+)/ Loss (-) from Ordinary Activities after tax (10-11)</b>	<b>1,742</b>	<b>804</b>	<b>1,635</b>	<b>4,811</b>
<b>13. Extraordinary items (net of tax expense)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14. Net Profit (+)/ Loss (-) for the period (12-13)</b>	<b>1,742</b>	<b>804</b>	<b>1,635</b>	<b>4,811</b>
<b>15. Paid-up equity share capital (Face Value ₹10 each)</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>
<b>16. Reserves excluding Revaluation Reserves</b>	<b>37,250</b>	<b>35,508</b>	<b>32,465</b>	<b>35,508</b>
<b>17. Analytical Ratios</b>				
(i) Percentage of shares held by Government of India	20.85%	20.85%	20.85%	20.85%
(ii) Capital Adequacy Ratio				
(a) BASEL I	NA	NA	NA	NA
(b) BASEL III	19.10%	19.62%	19.16%	19.62%
(iii) Earnings Per Share (Basic & Diluted) (EPS)	30.64#	14.14#	28.75#	84.62
(iv) NPA Ratios				
a) Amount of Gross NPA	312	183	136	183
b) Amount of Net NPA	0.00	0.00	0.00	0.00
c) % of Gross NPA	0.07	0.04	0.03	0.04
d) % of Net NPA	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) Return on Assets (after Tax) (annualised)	1.23%	0.63%	1.27%	0.89%
(vi) Net Worth	34,341	32,330	30,627	32,330
(vii) Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-
(viii) Capital Redemption Reserve	-	-	-	-
(ix) Debenture Redemption Reserve	-	-	-	-
(x) Operating Margin	21.74%	19.54%	23.45%	22.67%
(xi) Net Profit Margin	16.70%	8.06%	17.60%	12.49%
(xii) Debt - Equity Ratio *	8.87	9.81	8.65	9.81
(xiii) Total Debts to Total Assets (%) *	53.80	55.83	50.90	55.83

NA=Not Applicable  
# Not annualised  
\*Debt denotes total Borrowings (excluding Deposits)

**Notes:**

- The Significant Accounting Policies followed in preparation of these financial results, in all material aspects, are consistent with those followed in preparation of the annual financial statements for the year ended March 31, 2025.
- The above results have been approved by the Board of Directors at their meeting held on August 08, 2025.
- The figures for the quarter ended March 31, 2025 are the balancing figures between audited figures in respect of the financial year 2024-25 and the published year to date figures upto December 31, 2024.
- The financial results for the quarter ended June 30, 2025 have been arrived at, after considering provisions for Non-performing assets, Standard Assets, Depreciation on Fixed Assets, Amortization of discount, Income on investments/ bond issue expenses and Investment Depreciation on the basis of prudential norms issued by Reserve Bank of India, Income Tax, Deferred tax and other usual and necessary provisions including employee benefits made on an estimated/ proportionate basis, wherever required and subject to adjustment at the year-end.
- The Bank is making an additional provision on standard advances at rates higher than minimum stipulated under IRAC norms, as per the Board approved Accelerated Provisioning Policy. Accordingly, the Bank holds additional provision on standard advances (including restructured accounts) of ₹ 3,626.38 crore on June 30, 2025.
- Details of loans transferred / acquired during the quarter ended June 30, 2025, under the RBI Master Direction on Transfer of Loan Exposures dated September 24, 2021 are given below:  
Transfer of Loans:  
i. Details of non-performing assets (NPAs) transferred:

Particulars	To ARC's		
	To permitted transferees	To other transferees	
No. of accounts	-	-	-
Aggregate principal outstanding of loans transferred	-	-	-
Weighted average residual tenor of the loans transferred	-	-	-
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	-	-	-
Aggregate consideration	-	-	-
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-	-

During the quarter ended June 30, 2025, no investment made in Security Receipts (SRs). All the Security Receipts held are provided for and hence the net book value is nil. Excess provisions reversed to the profit and loss account on account of sale of stressed loans was nil.  
ii. The Bank has not transferred any loans not in default / Special Mention Accounts (SMA).  
Purchase of Loans:  
iii. The Bank has not acquired any stressed loan.  
iv. Details of loans not in default acquired during the quarter ended June 30, 2025, through assignment are given below:

Particulars	2025-26(Q1)		2024-25	
Aggregate amount of loans acquired (₹ in crore)	250.71	1,157.11		
Weighted average residual maturity (in months)	80.15	127.48		
Weighted average holding period by the originator (in months)	11.89	10.43		
Retention of beneficial economic interest by the originator	18.21%	20%		
Tangible security coverage	183.14%	216.75%		
Rating-wise distribution of rated loans	NA	NA		

- Floating provision is not considered for computation of net NPAs.
- Previous period's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to conform to current period classification.
- As per RBI's letter dated May 15, 2019, implementation of IND-AS has been deferred for AIFIs until further notice.
- In terms of RBI Circular no. RBI/2023-24/90 DOR.STR.REC.58/21.04.048/2023-24 dated December 19, 2023- Investments in Alternative Investment Funds (AIFs) and subsequent clarification vide circular no. RBI/2023-24/140 DOR.STR.REC.85/21.04.048/2023-24 dated March 27, 2024, Bank has reassessed the impact and continue to hold provision of ₹ 23 crore for the quarter ended June 30, 2025.
- In terms of RBI circular no. RBI/DoR/2023-24/105 DoR.FIN.REC.40/01.02.000/2023-24 dated September 21, 2023, AIFIs are required to disclose capital adequacy ratio and applicable Pillar 3 disclosures under BASEL III capital regulations from quarter ended June 30, 2024. Pillar 3 disclosures under BASEL III capital regulations are being made available on Bank's website i.e. <https://www.sidbi.in/listing-disclosure>. These disclosures have not been subjected to Limited Review by the Statutory Auditors.
- The above results have been subjected to Limited Review by the Statutory Auditors.

By order of the Board

Sd/-

[Manoj Mittal]

Chairman and Managing Director

Dated: August 08, 2025  
Place: New Delhi



Visit our website: [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in)



**THE BUSINESS DAILY FOR DAILY BUSINESS**

(... Continued from previous page)

The Board of Directors of the Company on August 07, 2025, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares as approved by BSE Limited and has allotted the Equity Shares to various successful bidders. The Allotment Advices-cum-Intimations and/or notices have been forwarded to the email ids registered with the depositories/as filled in the application form. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking the funds & transfer to Public Issue Account have been issued on or before August 08, 2025 and payment to non-syndicate brokers has been issued on or before August 08, 2025. In case the same is not received within two working days, investors may contact at the address given below. The equity shares allotted to the successful allottees have been uploaded on August 08, 2025 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company has filed the Listing application with BSE Limited on August 08, 2025. The Company has received the listing and trading approval from BSE Limited and trading will commence on August 11, 2025.

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the issue, Skyline Financial Services Private Limited at www.skylinertat.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Bid cum Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
SEBI Registration Number: INR000003241
Address: D-153A, 1st floor, Phase I, Okhla Industrial Area, Delhi-110020, India.
Telephone: +91-11-26812682/83, +91 99995 89085
Email: admin@skylinertat.com
Website: www.skylinertat.com
Investor Grievance Email: grievances@skylinertat.com
Contact Person: Anuj Rana
CIN: U74899DL1995PTC071324

On behalf of Board of Directors
For, BLT Logistics Limited
sd/-
Krishan Kumar
Chairman and Managing Director

Place: New Delhi
Date: August 08, 2025

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF BLT LOGISTICS LIMITED.

BLT Logistics Limited is proposing, subject to market conditions, public issue of its equity shares and had filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Delhi. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Book Running Lead Manager at www.beelineb.com, website of the BSE at www.bseindia.com and website of Issuer Company at www.bllogistics.com; Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors shall refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 28 of the Prospectus, which has been filed with ROC. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

जी. के. कंसलटेंट्स लिमिटेड

सीआईएन: L74140DL1988PLC034109

पंजीकृत कार्यालय: 17बी/35, भूतल, पंजाबी बाग दिल्ली-110026

वैबसाईट : www.gkconsultantsltd.com; ई-मेल : akg\_gkcl@yahoo.co.in

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

कंपनी के निदेशक मंडल ने 08 अगस्त 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी।

वित्तीय परिणाम, वैधानिक लेखा परीक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वैबसाईट https://gkconsultantsltd.com पर उपलब्ध हैं और दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी इन्हें देखा जा सकता है।



जी. के. कंसलटेंट्स लिमिटेड के लिए
सरोज गुप्ता
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07793920

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 71/2025, दिनांक 07.08.2025
अधिसूचना संख्या 71/2025, दिनांक 07.08.2025 के संदर्भ में मण्डल रेलवे चिकित्सालय, रायपुर एवं मण्डल चिकित्सालय, श्री एम बाय में मानद डिजिटिंग विशेषज्ञों के 04 घंटे प्रतिदिन / सप्ताह में 06 दिनों के लिए 07 रिक्तियों के विरुद्ध एक वर्ष के लिए सिविली के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
इस अधिसूचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया इस रेलवे की वेबसाइट http://secl.indianrailways.gov.in-Recruitment/News/Press Release- Recruitment - Raipur Division में सौंपित करें।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 06.09.2025 को शाम 18.00 बजे तक है।
मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर

PEE CEE COSMA SOPE LTD.

CIN: L24241UP1986PLC008344
Regd. Office : Padamplaza, Hall No. H1-H2, First Floor, Plot No.5, Sector-16B
Awaz Vikas Sikandra Yojna, Agra-07 (U.P.), Tel.: 0562-2527331/32, 2650500, 3500550
Website : www.peceecosma.com, E-mail : info@peceecosma.com

PUBLIC NOTICE

(for the attention of Equity Shareholders of the Company)
Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to DEMAT Account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Members of the company are hereby informed that in terms of provisions of Section 124(6) of the Companies Act 2013, and under Rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended by Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017 effective from February 28, 2017, herein referred to as "IEPF Rules" that:
i) In terms of Rule 6 of IEPF Rules, equity shares of the Company, in respect of which dividend entitlements have not been encashed for last seven consecutive years or more, are required to be credited to DEMAT Account of the Authority to be opened by the Authority.
ii) The Concerned Shareholders i.e. the shareholders whose shares are liable to be transferred to DEMAT Account of the Authority, who have not encashed their dividend in the last seven consecutive years or more have been already informed about this by 2 individual Notices sent at their last known address.
iii) The Company has uploaded full details of concerned shareholders and their folio number or DP ID - Client ID on its websites at www.peceecosma.com
iv) The concerned shareholders who are holding shares in demat form, may please note that Company shall inform the depository by way of corporate action, where the shareholders have their accounts for transfer of shares in favour of the Authority.
v) The concerned shareholders who are holding shares in physical form, the Company will be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original certificate(s) held by them and after issue of duplicate share certificates, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of Authority. Upon such issue, the Original share certificates which were registered in your name(s) will stand automatically cancelled and deemed non negotiable.
vi) The shareholders may please note that the above full details of list of such shareholders uploaded by the company on its website should be regarded and deemed to be adequate notice in respect of issue of new share certificate for the purpose of transfer of shares to DEMAT Account of the IEPF Authority pursuant to the amended rules.
vii) Shareholders can claim their unclaimed dividend lying with the company for a period of seven consecutive years from the Financial year 2017-2018 by writing a letter under their signature together with a copy of self attested PAN card and a copy of a cancelled cheque of your bank account into which the dividend amount should be credited, to the company's Registrar and Share Transfer Agent on or before 15th September, 2025, failing which the company will be compelled to transfer the relevant shares to IEPF Demat account.
In case the cancelled cheque does not bear your name, please attach a copy of your bank's passbook statement, duly self attested.
As per SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/PICIR/2021/655, dated 03.11.2021 and SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/PICIR/2021/687 dated 14.12.2021, it shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, KYC details and Nomination. Kindly attach Form ISR1, ISR2 and SH 13(duly filled) for the same. The same can be downloaded from the company's website at www.peceecosma.com
viii) Please note that no claim shall lie against the company in respect of the unclaimed dividend amount(s) and the shares so transferred.
ix) Shareholders may note that both the unclaimed dividends and the shares transferred to DEMAT Account including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them by making an application in Form IEPF-5 to the Authority, as prescribed under the Rules and the same is available at IEPF website i.e. www.iepf.gov.in.
x) You are also requested to kindly get your shares DEMAT as early as possible. In case the shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Company or the Company's Registrar and Transfer Agent at the following address:
Ms. Nidhi Agarwal, Company Secretary
Pee Cee Cosma Sope Ltd
Hall H1-H2, First Floor, Padam Plaza,
Plot No. 5, Sikandara Awaz Vikas Yojna, Agra 282007
E-mail: info@peceecosma.com
OR
Mr. Virender Rana, Director
M/s Skyline Financial Services Pvt. Ltd., (Registrar and Transfer Agent)
D-163-A, 1st Floor, Okhla Industrial Area,
Phase-I, New Delhi- 110 020
Tel: +91-11-64732661-88, 26812682-83
Email: info@skylinertat.com Website: www.skylinertat.com
For and on behalf of the Board
PEE CEE COSMA SOPE LIMITED
MAYANK JAIN
(Executive Chairman) DIN : 00112947

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष वंडीगड पीठ कंपनी आवेदन संख्या सीए (सीएए) संख्या 26/सीएवडी/एवआरवाई/2025

कंपनी अधिनियम, 2013 के मातले में
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के मातले में
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के प्रावधानों के तहत ग्रीनमूल एनबी सीएलएस प्राइवेट लिमिटेड और ल्यूकस रिसेलर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के हितों की रक्षा के मातले में
ग्रीनमूल एनबी सीएलएस प्राइवेट लिमिटेड ...हस्तांतरक कंपनी
ल्यूकस रिसेलर्स प्राइवेट लिमिटेड ...हस्तांतरिणी कंपनी

अलग बैठक बुलाने की सूचना
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 11 जुलाई, 2025 ("आदेश") के आदेश द्वारा, माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ("माननीय एनबीसीएलटी") की वंडीगड पीठ ने कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 230 से 232 के प्रावधानों के तहत ग्रीनमूल एनबी सीएलएस प्राइवेट लिमिटेड और ल्यूकस रिसेलर्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों ("योजन") के बीच प्रस्तावित विलय योजना पर विचार करने और यदि उचित समझा जाए तो उसे संचालन के साथ या बिना संचालन के अनुमोदन करने के उद्देश्य से हस्तांतरणकर्ता कंपनी के असुरक्षित लेनदारों और सुरक्षित लेनदारों की अलग-अलग बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।

Table with 4 columns: क्र.सं., को बैठक, दिन और दिनांक, समय. Lists shareholders and their meeting details.

कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें:

- उपरोक्त बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी और माननीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेश और अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार बैठकों के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
बैठकों की सूचना की प्रती, विलयन योजना, व्याख्यात्मक विवरण और अन्य दस्तावेज, यदि कोई हो, के साथ, हस्तांतरक कंपनी के सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों को भेजी जा रही है।
बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने जादि के निर्देश बैठकों की सूचना में दिए गए हैं।
बुकि बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने का प्रस्ताव है, इसलिए प्रॉक्सी के माध्यम से बैठकों में भाग लेने का विकल्प लागू/उपलब्ध नहीं है।
उक्त योजना और व्याख्यात्मक विवरण तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतियां, पॉट संख्या 62/4, आईएमडी मानेसर, मुद्रागढ़, हरियाणा-122050, भारत स्थित हस्तांतरणकर्ता कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से या उक्त बैठकों की तिथि तक सभी कार्य दिवसों (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) के कार्य समय के दौरान नि:शुल्क भेजा जा सकता है।
माननीय एनबीसीएलटी ने सूची रिया बाईसा, एडवोकेट को अध्यक्ष नियुक्त किया है और उनकी अनुपस्थिति में, श्री कृष्ण राजेश चौधरी, जिनकी पंजीकरण संख्या: IBB/IPA-001/JP-P00684/2017-2018/11161 है, को वैकल्पिक अध्यक्ष और श्री विमल कुमार गुप्ता, जिनकी पंजीकरण संख्या: IBB/IPA-001/JP-P00935/2017-2018/11539 है, को उपयुक्त बैठकों का सदीक्षक नियुक्त किया है। यदि उपयुक्त बैठकों में इन योजना को मंजूरी मिल जाती है, तो यह माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की वंडीगड पीठ द्वारा बाद में दी जाने वाली मंजूरी के अर्थात होगी।
हस्ता. /- श्री सुनील मेहता निदेशक

THE BUSINESS DAILY FOR DAILY BUSINESS
FINANCIAL EXPRESS
Read To Lead

MapmyIndia MAPPLS
C. E. Info Systems Limited
Registered and Corporate Office: First, Second, & Third Floor, Plot No. 237, Okhla Industrial Estate, Phase- III, New Delhi 110 020, India
CIN: L74899DL1995PLC065551 | Website: www.mapmyindia.com; E-mail: cs@mapmyindia.com; Telephone: +91 11 4600 9900.

Extract of unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter ended June 30, 2025

Table with 5 columns: Particulars, Quarter ended (June 30, 2025, March 31, 2025), and For the year ended (June 30, 2024, March 31, 2025). Rows include Total income from operations, Net Profit, Total Comprehensive Income, etc.

KEY NUMBERS OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

Table with 5 columns: Particulars, Quarter ended (June 30, 2025, March 31, 2025), and For the year ended (June 30, 2024, March 31, 2025). Rows include Total income from operations, Net Profit, Total Comprehensive Income, etc.

Notes:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Company's website www.mapmyindia.com and also on the website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com), where the shares of the Company are listed.

The Financial Results can also be accessed by scanning the below QR Code:



Date: August 08, 2025
Place: New Delhi

For and on behalf of the Board of Directors of
C. E. Info Systems Limited
Rakesh Verma
Managing Director
DIN: 01542842

HDFC BANK

पंजीकृत कार्यालय: एचडीएफसी बैंक हाउस, सेक्टर 11, प्लॉट नं. 1, एचडीएफसी बैंक हाउस, लोहार रोड (एचडीएफसी), मुंबई - 400 013.
हमें एक अन्य कार्यालय: दिल्ली फोर्सेस/सेक्टर 11, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, पहाड़ी गंज, आई-पिन: 110 002, दिल्ली।
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की विवरण के लिए विक्री की जानकारी और सूचना।

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ("बैंक") के नीचे उल्लिखित कर्जदारों की प्रतिभूतियों पर ब्रह्म/ओवरड्राफ्ट के रूप में ब्रह्म सुविधाएं प्राप्त करने के लिए बैंक के पास गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की विवरण के संबंध में अधिसूचित किया जाता है।

ब्रह्म शर्तों के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करने में कर्जदारों द्वारा लगातार चूक के कारण, नीचे दिए गए ब्रह्म खाते अपराधी स्थिति में हैं। बैंक ने इन कर्जदार को कई नोटिस जारी किए हैं, जिसमें नीचे उल्लिखित तिथि पर अंतिम नोटिस भी शामिल है, जिसके तहत बैंक ने गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को वापस मंगवाया था और कर्जदार को नीचे दिए गए खातों में बकाया राशि का पूरा भुगतान करने के लिए 7 दिनों का समय दिया था, जिसमें विफल होने पर, बैंक इस संबंध में आगे कोई नोटिस जारी किए बिना गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। कर्जदारों ने उचित पुनर्भुगतान करने में उषा की और विफल रहे, इसलिए बैंक ने ब्रह्म समझौते के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक गिरवीदार के रूप में 16 अगस्त, 2025 को या उसके बाद प्रतिभूतियों को बेचने / निपटारे का फैसला किया है ताकि कर्जदारों द्वारा बैंक को शेष बकाया राशि स्वयं को जा सके। कर्जदारों को यह भी अधिसूचित किया जाता है कि यदि किसी भी समय, नॉटिस आवश्यकता नहीं और कमी देना करने के लिए श्रेष्ठ समाधान से अधिभार के कारण गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का मूल्य और रिज जाते हैं, तो बैंक अपने विकल्प पर इस संबंध में किसी भी अतिरिक्त सूचना के बिना एक (1) कैलेंडर दिवस के भीतर गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को बेच सकता है। कर्जदार गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की विवरण से प्राप्त आय के समाधान के बाद किसी भी शेष बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए बैंक के प्रति उत्तरदायी रहेगा।

Table with 7 columns: क्र.सं., ब्रह्म खात सं., कर्जदार का नाम, कर्जदार का नाम, 6 अगस्त, 2025 तक बकाया राशि, विक्री तिथि, विक्री तिथि. Lists borrowers and their loan details.

दिनांक: 08.08.2025
स्थान: नगर प्रदेस
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड